

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व पशु तस्करो के विरुद्ध अभियान मे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के नेतृत्व मे आज दिनांक 30.7.19 को मै प्रभारी निरीक्षक मय हमराह उ0नि0 अरविन्द कुमार राय , का0 संदीप कुमार , का0 आनन्द किशोर व का0 राकेश प्रसादके थाने से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति क्षेत्र मे मामूर था कि जरिये मुखवीर खास सूचना मिली कि साहब महेवा मण्डी के तरफ से हर्वट बन्धा होते हुए दो पीकप वुलेरो पर अवैध रूप से भैस व पडवा व पडिया को लेकर तिवारीपुर की तरफ जाने वाले है । अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ सकते है । इस सूचना पर विश्वास करके मै प्रभारी निरीक्षक मय हम हमराही फोर्स मुखविर को साथ लेकर हर्वट बन्धा बसन्तपुर तकिया तिराहे पर सरकारी जीप को किनारे छिपाकर आने वाली पिकप वुलेरो का इन्तजार करने लगे कुछ ही समय बाद महेवा मण्डी की तरफ से 02 वुलेरो पिकप सफेद रंग आता हुआ दिखायी दिया कि मुखवीर खास ने इशारा कर के बताया कि साहब यह वही दोनो गाड़ी है । वह हट बढ गया कि बोलेरो पिकप पास आते ही हम पुलिस वाले रोकने का इशारा किया कि बोलेरो मे सवार तीन व्यक्ति नीचे उतर कर हम पुलिस वालो को देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहे कि एक बारगी घेरकर गाड़ियो के आगे गाड़ी करके गाड़ियो को रोका गया तीनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर दोनो पिकप बोलेरो की तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम मासूक अली S/O मुख्तार अहमद निवासी जैतपुर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर उम्र 42 वर्ष बताया तथा दुसरे ने अपना नाम विरजू चौधरी S/O कन्हैया चौधरी निवासी हरपुर मोहन थाना घुघली जिला महाराजगंज उम्र 22 वर्ष बताया तथा तीसरे ने अपना नाम सुनील यादव S/O जियूत यादव R/0अमवा भैसी थाना कोतवाली जिला महाराजगंज उम्र 19 वर्ष बताया दोनो पिकप बोलेरो के ढाला को खोलकर देखा गया तो 04 राशि भैस व 02 राशि पडवा व 01 राशि पडिया बरामद हुआ । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 138/19 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- मासूक अली S/O मुख्तार अहमद नि0 जैतपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र 42 वर्ष
- 2- विरजू चौधरी S/O कन्हैया चौधरी नि0 हरपुर मोहन थाना घुघली जिला महाराजगंज उम्र 22 वर्ष
- 3- सुनील यादव S/O जियूत यादवनि0 अमवा भैसी थाना कोतवाली जिला महाराजगंज उम्र 19 वर्ष

बरामदगी-

- 1- 04 राशि भैस व 02 राशि पडवा व 01 राशि पडिया

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- प्र0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय
- 2- उ0नि0 अरविन्द कुमार राय
- 3- आरक्षी संदीप कुमार
- 4- आरक्षी राकेश प्रसाद
- 5- आरक्षी आनन्द किशोर

(राजेश कुमार पाण्डेय)

प्रभारी निरीक्षक

थाना- राजघाट, गोरखपुर